



क्या नीतिआयोग को अपना वास्तविक स्थान प्राप्त करने के लिए और कवायद करनी होगी?

सन्दर्भ :

भारत सरकार द्वारा 'योजना आयोग' के स्थान पर 'नीतिआयोग' (नेशनल इंस्टिट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) नामक नए संस्थान का गठन किया गया है। यह संस्थान सरकार के थ्रि टैक के रूप में सेवाएँ प्रदान करने और उसे नरिदेशात्मक एवं नीतित्गित गतिशीलता प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। वर्तमान सरकार में अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के बावजूद यह महसूस किया जा रहा है कि यह अब तक अपनी उस भूमिका को अपनाने में सफल नहीं हो सका है जिसके लिए इसकी दो वर्षों पूर्व संकल्पना की गई थी।

प्रमुख बट्टि :

- वशिषज्जों के अनुसार नीतिआयोग को शोधपरक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए था।
- वर्तमान स्थितियों में इसके रणनीतिक और प्रक्रियागत आधारों में स्पष्टता की कमी, इसके मार्ग में बाधाएँ उत्त्पन्न करती प्रतीत होती हैं।
- ध्यातव्य है कि नीतिआयोग के पास अपने पूर्ववर्ती 'योजना आयोग' के समान राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों के लिए वित्तीय संसाधनों के आवंटन का अधिकार भी नहीं है।
- संभवतः यही वे कारण हैं कि वह योजना आयोग के समान भूमिका का नरिवाह नहीं कर पा रहा है।
- इस दशा में एक प्रभावी तंत्र की पहचान किये जाने की भी आवश्यकता है जो नीतिआयोग को क्रयान्वयन के स्तर पर सहयोग प्रदान कर सके।

नीतिआयोग द्वारा किये गए महत्वपूर्ण कार्य :

- यह वनिविश के फलस्वरूप समस्याग्रस्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पहचान करने, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में परिवर्तन की सफारिश करने, केंद्र सरकार के कैशलेस अर्थव्यवस्था पहल को संचालित करने, राष्ट्रीय विमानन नीति और नई ऊर्जा नीति पर जानकारी प्रदान करने, और ई-कॉमर्स हेतु प्रत्यक्ष वदेशी निवेश नीति तैयार करने में अग्रणी रहा है।
- वदिति हो की पछिले वर्ष नीतिआयोग द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्याख्यानो की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी जिसमे माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिलि गेट्स एक वक्ता के रूप में शामिल हुए थे। इसके अतिरिक्त यह भारत ऊर्जा सुरक्षा परदिश्य-2047 सहित कई शोध पत्र प्रकाशित कर चुका है।
- नीतिआयोग ने कुछ राज्यों में कई पुराने और अप्रचलित कानूनों को समाप्त करने, भूमि पिट्टों को वैध करने और कृषि विपिणन में गुणात्मक परिवर्तन लाने में मदद की है।
- सशक्त राज्य के नरिमाण से ही सशक्त राष्ट्र का नरिमाण संभव है अतः 'सहयोगपूर्ण संघवाद' को बढ़ावा देना नीतिआयोग का एक मूलभूत उद्देश्य है। इस तथ्य की महत्ता को स्वीकार करते हुए नीतिआयोग द्वारा राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी और राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करते हुए राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल को एक 'राष्ट्रीय एजेंडा' के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।
- इसके साथ ही, यह शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को परामर्श और प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है जिसके अंतर्गत नीति आयोग द्वारा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ-साथ एनसीईआरटी जैसी अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारत में 20 वशि्व स्तरीय संस्थानों के नरिमाण और 200 से अधिक स्कूलों में प्रयोगशालाओं के नरिमाण पर भी कार्य किया जा रहा है।
- इन प्रयासों के माध्यम से नीतिआयोग राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय वशिषज्जों तथा अन्य हतिधारको से समुदाय आधारित सहयोग के ज़रिये ज्ञान नवाचार उद्यमशीलता हेतु सहायक प्रणाली विकसित करेगा।

नषिकर्ष :

नीतिआयोग अपने सराहनीय प्रदर्शन के द्वारा सरकार के लिए एक समस्या निवारण तंत्र के रूप में उभरा है किन्तु यदि समग्र रूप से देखा जाए तो उसकी वर्तमान उपलब्धियों उस अनुपात में काफी कम है जिसकी इससे अपेक्षा की जा रही थी। हालांकि यदि समय रहते इसमें वदियमान रणनीतिक एवं क्रयान्वयन सम्बन्धी समस्याओं को दूर किया जा सके तो नीतिआयोग द्वारा नीतियों को आकार देने में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए जाने और अपने संकल्पनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त किये जाने की प्रबल संभावना है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/what-policy-the-commission-will-have-to-drill-to-get-your-actual-location>

